



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 267 राँची, बुधवार,

27 मार्च, 2019 (ई०)

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

अधिसूचना

5 मार्च, 2019

अधि० संख्या-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो०)-4035/2005श्र०नि०-439--ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-82, दिनांक-08.01.2019 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-1781, दिनांक-06.12.2018, सहपठित ज्ञापांक-1785, दिनांक-06.12.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अक्षय कुमार सिंह, नियोजन पदाधिकारी, सेमी यूनिट मुख्यालय, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, राँची सम्प्रति मुख्य सूचना पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त को सहायक निदेशक (नियोजन) के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। साथ मुख्य सूचना पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 31 मार्च, 2019 तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे। 31 मार्च, 2019 के पश्चात इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि स्वतः समाप्त हो जायेगी। इनका मुख्यालय धनबाद रहेगा।

2. विभागीय अधिसूचना सं.-1781, दिनांक-06.12.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अलोइस लकड़ा,
सरकार के अपर सचिव।
